



महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में संचाई परियोजनाओं के लिये विशेष पैकेज को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मराठवाड़ा, वदर्भ तथा शेष महाराष्ट्र के सूखा संभावित क्षेत्रों की 91 संचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिये विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बट्टि

- विशेष पैकेज से मराठवाड़ा, वदर्भ तथा शेष महाराष्ट्र के सूखा संभावित क्षेत्रों में 3.77 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त संचाई क्षमता का सृजन होगा।
- परियोजनाओं में विशेष पैकेज के अंतर्गत 26 बड़ी/मझौली परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिनकी अधिकतम क्षमता 8.501 हेक्टेयर है और इनका वित्तपोषण पोषण PMKSY- AIBP के अंतर्गत किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के दिसंबर, 2019 तक पूरा किये जाने की आशा है।

प्रधानमंत्री कृषि संचाई योजना (PMKSY)

- केंद्र सरकार ने सूखे की समस्या के स्थायी समाधान के लिये प्रधानमंत्री कृषि संचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की शुरुआत की है।

PMKSY के प्रमुख उद्देश्य

- ◆ संचाई परियोजनाओं में नविश में एकरूपता लाना
- ◆ 'हर खेत को पानी' के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का वस्तितार करना
- ◆ खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाना
- ◆ पानी के अपव्यय को कम करना
- ◆ उचित संचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना (हर बूँद अधिक फसल)
- ◆ संचाई में नविश को आकर्षित करने का भी प्रयास करना

- परियोजनाओं की प्रगतिकी नगिरानी राज्य तथा केंद्रीय जल आयोग द्वारा की जाएगी।
- इन 91 परियोजनाओं की शेष लागत का 25 प्रतिशत और 2017-18 के दौरान आए खर्च के लिये 25 प्रतिशत भुगतान उपलब्ध कराया जाएगा।
- इन परियोजनाओं के लिये 3,831.41 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। शेष राशि महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- यह व्यवस्था है कि राज्य के हिससे का प्रबंध नाबार्ड के माध्यम से किया जाएगा।

त्वरित संचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)

Accelerated Irrigation Benefits Program – AIBP

- संचाई की दर में नरितर गरावट के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा अपूरण संचाई योजनाओं को पूरा करने के लिये सहायता देने हेतु 1996-97 से त्वरित संचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) प्रारंभ किया गया।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाएँ सहायता के लिये पात्र हैं।

वर्षिक पैकेज से लाभ

- इन परियोजनाओं के पूरा होने से इनके कमान क्षेत्र में किसानों के लिये जल-स्रोत की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे फसल की पैदावार में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय बढ़ेगी।

- योजना के क्रयान्वयन से 341 लाख अकुशल, अर्द्धकुशल तथा कुशल मानव दविस रोज़गार का सृजन होगा ।

महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति

- महाराष्ट्र में 2012 से 2016 तक सूखे की स्थिति रही है ।
- यह स्थिति विदिर्भ और मराठवाड़ा में सबसे गंभीर रही है क्योंकि यहाँ किसानों द्वारा आत्महत्या की गई है ।
- हाल के वर्षों में शेष महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी सूखे की स्थिति देखी गई है । राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ये परियोजनाएँ जारी थीं लेकिन धन की कमी के कारण रुकी हुई हैं ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/central-funding-for-maharashtra-irrigation-projects>

